



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

19 फाल्गुन 1937 (श0)  
(सं0 पटना 194) पटना, बुधवार, 9 मार्च 2016

---

सं0 4/प्र0-4-101/2012-3355 /सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

-----

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 04.03.2016

**विषय:-** आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में दिनांक 14.05.2013 से 30.04.2014 तक निम्नवर्गीय लिपिक के लिए एक अधिसंख्य पद अस्थाई रूप से सृजन के संबंध में ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-201 दिनांक 13.05.2013 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय सहित), बिहार, पटना में कार्यरत समूह 'घ' के कर्मियों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप आयुक्त कार्यालय, सहरसा में दो निम्नवर्गीय लिपिक का पदस्थापन किया गया। आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक का कुल 05 (पांच) पद स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध 04 (चार) निम्नवर्गीय लिपिक पूर्व से ही आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में कार्यरत थे।

2. विभागीय आदेश संख्या-201 दिनांक 13.05.2013 के आलोक में प्रोन्नत दो निम्नवर्गीय लिपिक द्वारा दिनांक 14.05.2013 को आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में योगदान समर्पित किया

गया। फलस्वरूप आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में निम्नवर्गीय लिपिक के स्वीकृत बल से एक कार्यरत बल अधिक हो गया।

3. उक्त के आलोक में निम्नवर्गीय लिपिक का स्वीकृत बल से एक कार्यरत बल अधिक हो जाने के कारण उत्पन्न विसंगति के निराकरण के लिए आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में स्वीकृत बल में रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि दिनांक 30.04.2014 (दिनांक 14.05.2013 से 30.04.2014 तक के लिए) निम्नवर्गीय लिपिक का एक अधिसंख्य पद के लिए अस्थाई रूप से सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि की निकासी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा वेतनादि मद में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. उपरोक्त कंडिका-3 में निहित प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**केशव कुमार सिंह,**

**सरकार के संयुक्त सचिव।**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 194-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>